



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 8, मंगलवार, शाके 1941-जुलाई 30, 2019  
Sravana 8, Tuesday, Saka 1941-July 30, 2019

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजाएँ  
जन अभियोग निराकरण विभाग  
संशोधन

जयपुर, जून 24, 2019

**प.16 (1)आरपीजी/2017** :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं. प.13 (1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 05 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 16 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 110 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान अभिव्यक्ति "शासन उप सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

रविशंकर श्रीवास्तव,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

364

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।